

Ref. No.: LIC/SE/2023-24/69

To.

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai—400001

Scrip Code: (BSE- 543526/NSE - LICI)

Dear Sir/ Madam,

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of IndiaLtd.
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot C/1.

G Block, Bandra Kurla Complex

Date: August 11th, 2023

Mumbai-400051

Sub: Newspaper Advertisement – Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023.

The Board of Directors at its Meeting held on 10<sup>th</sup> August 2023 has inter alia, approved the Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results of the Corporation for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2023. The said Unaudited Financial Results in the prescribed format were published in the Business Standard (Hindi and English), Navshakti (Marathi) and Free press journal (English) on 11<sup>th</sup> August 2023. A copy of the results published is attached herewith. These are also being made available on the website of the Corporation at www.licindia.in.

You are requested to take the same on record.

Yours faithfully,

For Life Insurance Corporation of India

(Pawan Agrawal)

**Company Secretary & Compliance Officer** 

केंद्रीय कार्यालय, ''योगक्षेम'', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.

# **Hero Moto profit zooms 32% in Q1**



#### IN FAST LANE

- Sales dropped 2.7% to 135,000 units from the year ago period
- Rural India accounted for majority of all two-wheeler sales
- Quarterly revenue rose 4.5%, led largely by a price increase
- The firm plans more premium bike launches in the coming quarters

#### RFIITERS Bengaluru, 10 August

MotoCorp Thursday reported a 32 per cent year-on-year (Yo-Y) growth in net profit for the quarter ended June 2023 to ₹825 crore. Revenue from operations grew 4.5 per cent Y-o-Y to ₹8.767.3 crore.

The results are in contrast with rivals Bajaj, Eicher-owned Royal Enfield, and TVS Motor, all of which topped estimates.

Indian bike makers have been struggling to return to pre-pandemic sales volumes, as costlier entry-level offerings deter buyers in the key rural market from mak-

India traditionally accounted for a majority of all twowheeler sales, with cheaper 100cc offerings, including Hero's topselling Splendor motorcycle, accounting for 70 per cent of sales.

However, the company's sales volumes have dropped in recent years, with sales in the quarter down 2.7 per cent to 135,000 units from a year before. Retail inflation also continued to squeeze household incomes despite easing from last year, with food prices surging due to erratic monsoon rains.

Quarterly revenue rose 4.5 per cent to ₹8,767 crore, led largely by a price increase taken due to new emission norms that made it costlier to produce vehicles.

Meanwhile, the company said early promise.

earlier this week that it had gotten over 25,000 bookings for the X440, the world's cheapest Harley-Davidson. The firm has also seen officials visit two of its offices and is being probed by tax authorities over its links to a vendor.

A normal monsoon and an upcoming festive season augur well for demand, the company said. "Overall, we see a positive scenario on demand side, especially for second half of this year and onwards." Shares of Hero closed down 0.8 per cent ahead of the results.

The motorcycle maker, on Thursday, also doubled down on its bets on the premium with Harley-Davidson showed

## Ola's loss widens to ₹3,082 crore

#### More than doubles on a yearly basis

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 10 August

popularly known as Ola Cabs, saw its loss widening to ₹3,082 crore in 2021-22, accordfinancial to data accessed by business intelligence platform Tofler. The company's losses have more than doubled on a year-over-year

basis, the data showed. "Ani Technologies, an online transportation network company (popularly known as Ola Cabs),

reported its revenues for the 2021-22 financial year at ₹1,350 crore, a 49 per cent jump since the last Ride-hailing company Ani financial year," Tofler said in a

statement. company further reported a net loss of ₹3,082 crore during the fiscal. This is a 132 per cent higher than the last financial year," the statement said.

The firm's total expenses for the fiscal were ₹1,539 crore.An email query sent to Ola seeking a response did not elicit an immediate reply.

#### **Grasim Industries** profit declines 6%

Aditya Birla Group firm Grasim reported a decline of 6.61 per cent in consolidated profit to ₹2,576.35 crore for the June quarter, impacted by softening of realisations in domestic business and its subsidiary UltraTech Cement. It had posted a profit of ₹2,758.75 crore during previous year's first quarter. The firm's revenue from operations was up 10.78 per cent at ₹31.065.19 crore. PTI

# भारतीय जीवन बीमा निगम

### LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Central Office: Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400021 (IRDAI Reg. No. 512 dated 01.01.2001)

#### UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				\ III IUKII	
Sr.		TI	Three months ended/as at			
No.	Particulars Particulars	30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23	
1	Premium Income (Gross) 1	98,91,572.02	1,32,43,221.18	98,94,067.63	4,76,63,279.16	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	9,73,355.34	13,19,094.87	63,123.07	36,08,093.50	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) <sup>2</sup>	9,73,355.34	13,19,094.87	63,123.07	36,08,093.50	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	9,63,498.31	13,19,079.43	60,278.68	35,99,664.60	
5	Equity Share Capital (Paid-up)	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve and fair value change account)	49,72,313.57	40,10,087.18	5,59,021.13	40,10,087.18	
7	Earnings Per Share (Face value of Rs.10 each) continuing and discontinued operations)-					
	1. Basic:	15.23	20.86	0.95	56.91	
	2. Diluted:	15.23	20.86	0.95	56.91	

Key number of Unaudited Standalone Results of the Company are as under:

₹in lakh

Sr.	Particulars	1	Three months ended/as at		
No.		30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23
1	Premium Income (Gross) <sup>1</sup>	98,50,944.65	1,31,96,386.23	98,48,585.12	4,74,66,813.63
2	Profit before tax	9,63,464.04	13,42,185.93	70,442.39	36,45,678.15
3	Profit after tax	9,54,371.26	13,42,781.16	68,288.90	36,39,738.99

Place:- Mumbai

Date:- 10.08.2023

- 1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
- 2. Net Profit/(Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' account)
- 3. The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (<u>www.nseindia.com</u> and <u>www.bseindia.com</u>) and the Corporation's website (<u>www.licindia.in</u>)
- 4. The financial results include the figures for the quarter ended 31/03/2023 being the balancing figures between the audited figures in respect of full Financial Year 2022-23 and the published unaudited figures upto the third quarter of the previous financial year
- 5. The New Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance industry in India.

For and on behalf of the Board of Directors

**Managing Director** (DIN: 07791184)

## Badhte Bharat ka Mazboot Aadhar DISBURSEMENT **LIVE ACCOUNTS -**(Q1 FY 23) ₹ 1,438 Cr. 478 Branches & ₹ 146 Cr. Offices 20 States & UTs Standalone Statement of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 (Rs. in Lakh)

	PARTICULARS	FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023	FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022	FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2023	FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
		(UNAUDITED)	(UNAUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)
1	Total Income from Operations	57,802	44,598	53,819	1,99,427
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	18,736	14,764	20,443	72,055
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	18,736	14,764	17,943	69,555
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14,628	11,575	14,061	54,458
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14,516	11,511	14,047	54,455
6	Paid up Equity Share Capital	39,476	39,476	39,476	39,476
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,44,694	2,86,715	3,30,081	3,30,081
8	Securities Premium Account	1,33,700	1,33,700	1,33,700	1,33,700
9	Net worth	3,84,163	3,26,185	3,69,551	3,69,551
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	12,27,208	10,68,556	12,15,345	12,15,345
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	2.90	2.89	2.79	2.79
13	Earnings Per Share (not annualised for quarter ended periods)				
	1. Basic:	3.71	2.93	3.56	13.80
	2. Diluted:	3.60	2.84	3.46	13.38
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	16,910	16,910	16,910	16,910
16	Debt Service Coverage Ratio	0.75	1.34	1.28	1.31
17	Interest Service Coverage Ratio	1.80	1.79	1.84	1.87
18	Total Debts to Total Assets (%)	74.66%	74.88%	73.66%	73.66%
19	Net profit Margin (%)	25.31%	25.95%	26.13%	27.31%
20	GNPA (%)	1.49%	2.02%	1.17%	1.17%
21	NNPA (%)	1.00%	1.45%	0.77%	0.77%
22	Provision Coverage Ratio (%)	33.26%	28.36%	34.25%	34.25%
23	Capital Adequacy Ratio (CRAR) (%)	42.26%	47.35%	42.73%	42.73%

Place : Mumba

Date: August 9, 2023

- a) The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and the Aadhar Housing Finance Limited www.aadharhousing.com b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange BSE Limited and can be
- accessed on www.bseindia.com Current ratio, Long term debt to working capital ratio, Bad debts to account receivable ratio, Current liability ratio, Debtors turnover, Inventory turnover and Operating
- d) Previous periods / year figures have been regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarter ended June 30, 2023.

of Aadhar Housing Finance Limited

Rishi Anand **Managing Director & CEO** DIN 02303503

For and on behalf of the Board of Directors

Aadhar Housing Finance Ltd., CIN: U66010KA1990PLC011409, Registered Office: No. 3, JVT Towers, 8th 'A' Main Road, Sampangiramanagar, Near Hudson Circle engaluru- 560 027 | Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai – 400069 | Tel. No.: 022 4168 9900 | Fax: 022 4168 9934 | Customer Care Toll Free: 1800 3004 2020 | E-mail: customercare@aadharhousing.com | Website: www.aadharhousing.com

# **GROSS PREMIUM** ₹ 8.917.71 CRORE **NET WORTH** ₹ 69.650.29 CRORE GIC Re **SOLVENCY RATIO**

### **REVIEWED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Fin Croros)

			(₹ in Crores)
SI. No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2023	Quarter Ended 30.06.2022
1	Premium Income (Gross)	8,917.71	11,021.83
2	Net Profit/(Loss) After Tax	731.79	689.72
3	Paid up Equity Share Capital	877.20	877.20
4	Net Worth (Including Fair Value change Account)	69,650.29	53,741.39
5	Total Assets	1,63,928.08	1,46,178.09
6	Solvency Ratio	2.88	2.14

#### Notes:-

Place: Mumbai

Date: 10<sup>th</sup> August, 2023

- a) Premium income is Gross written premium, gross of reinsurance and net of applicable taxes.
- b) The above is an extract of the detailed format of quarterly and year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly and year to date Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Corporation (www.gicre.in)

For and on behalf of the Board Directors

Devesh Srivastava Chairman and Managing Director DIN: 08646006

## **General Insurance Corporation of India**

"Suraksha", 170, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai 400020, India. | Telephone (Board): +91 22 2286 7000 • Email: info@gicre.in Visit us at www.gicre.in CIN: L67200MH1972GOI016133 & IRDAI Registration No: 112

















# भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही: निर्मला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कर रही है प्रयास

श्रीमी चौधरी

🕏 चित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं महंगाई और मंदी की दोहरी चुनौतियों से जूझ रही हैं तब भी भारत आशावादी और सकारात्मक होने की स्थिति में है।

उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का भी जिक्र किया जिसमें विशेष रूप से टमाटर शामिल है और इसमें पड़ोसी देशों से दालों और टमाटर का आयात करना भी शामिल है।

सीतारमण ने मौजुदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कहा, 'वर्ष 2013 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को दुनिया की पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया था, आज उसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को ऊंची रेटिंग दी है और यह रेटिंग हमारी सरकार की नीतियों और आर्थिक सधार की वजह से मिल रही है और इसी वजह से भारत अपनी भविष्य की वृद्धि को लेकर आशावादी और सकारात्मक है। पिछले 9 वर्षों में, कोविड के बावजूद हमारी सरकार की बेहतर नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और आर्थिक विकास हुआ। फिलहाल हम दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में खंडे हैं।' मॉर्गन स्टैनली ने पिछले सप्ताह भारत की स्थिति को 'ओवरवेट' में अपग्रेड किया जिसके बाद भारत इसकी ब्रोकिंग कंपनी के पोर्टफोलियों के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है।

वित्त मंत्री ने वैश्विक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था महंगाई और मंद वृद्धि की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा, 'वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी और वर्ष 2023 के लिए विश्व बैंक के अनुमान से यह संकेत मिलते हैं कि यह कम होकर 2.1 प्रतिशत रह सकती है। इस बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.2 प्रतिशत है और वर्ष 2023-24 में इसके 6.5 प्रतिशत तक के स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।'उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश और यूरो क्षेत्र बड़ी मुश्किल स्थिति का सामना



वित्त मंत्री ने गरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया

कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा, 'यरोपियन सेंटल बैंक और बैंक ऑफ इंगलैंड ने कई बार ब्याज दरें बढाईं। इसके अलावा चीन जैसी महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी उपभोक्ताओं की मांग और वेतन स्थिरता से जुड़े मुद्दों से जुझना पड़ रहा है।'

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार द्वारा अमल किए गए विभिन्न उपायों का जिक्र करते हुए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार के कार्यों के साथ उसकी तुलना की। उन्होंने कहा, 'पूर्ववर्ती संप्रग सरकार में भ्रष्टाचार और पुंजीवादी सांठगांठ के कारण पूरा एक दशक बरबाद हो गया। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने विपरीत परिस्थिति और संकट को सुधार तथा अवसर में बदलने का काम किया गया। उदाहरण के तौर पर आप बैंकिंग क्षेत्र को ही लें हमें संप्रग सरकार के दौरान फैलाए गए रायता को साफ

कुछ खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रित करने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने राजस्थान, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में करीब 882,000 किलोग्राम टमाटर का वितरण किया और यह वितरण आने वाले दिनों जारी रहेगा। सीतारमण ने कहा, 'आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की थोक मंडियों में टमाटर की कीमतें 100 रुपये से कम हो गईं हैं और हमें उम्मीद है कि इससे हमें मदद मिलेगी। हमने आज तक कोलार मंडी से दिल्ली तक 85

रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से टमाटर की खरीद की है और हम आयात प्रतिबंधों को हटाकर नेपाल से टमाटर का आयात शुरू करेंगे। शुक्रवार तक नेपाल से टमाटर की पहली खेप बनारस और कानपर तक

दाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल के मकाबले तअर दाल के आयात में बढ़ोतरी है और मोजांबिक से भी माल आ रहा है। इसी तरह उड़द दाल का आयात भी म्यांमार से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूंग और मसूर दाल की पर्याप्त आपूर्ति है। इसके अलावा किसी संभावित कीमत बढ़ोतरी को रोकने के लिए 300.000 टन प्याज को बफर स्टॉक से जोडा गया है। कांग्रेस सरकार के 'गरीबी हटाओ' नारे का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा वास्तव में हो पाया। उन्होंने कहा, 'संप्रग के समय 'बनेगा, मिलेगा' जैसे शब्द प्रचलन में थे। लेकिन आजकल लोग 'बन गया, मिल गया, आ गया' जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'हम सभी को सशक्त करने और किसी का तुष्टीकरण नहीं करने पर

भरोसा करते हैं।' चर्चा के दौरान ही उन्होंने मदुरै में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से आवंटन राशि बढकर 700 करोड़ रुपये हो गई है और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

# 'डेटा संरक्षण विधेयक पारित होना अच्छा कदम'

**फ्लिपकार्ट** ने गुरुवार को कहा कि डेटा संरक्षण विधेयक पर वह सरकार के रुख का समर्थन करती है। डेटा सुरक्षा की जवाबदेही निर्धारित करने के प्रावधान वाले 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक,

2023' को बुधवार को संसद ने मंजूरी दी थी। इस विधेयक में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण तथा व्यक्तिगत डेटा का संवर्द्धन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक 7 अगस्त को पारित हो

फ्लपकार्ट के कॉरपोरेट मामलों के मुख्य अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा कदम है।

इस पर हमारी राय एक है और चुंकि इसे अभी पारित किया गया है, इसलिए हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हमारा पूरा डेटा भारत में है, इसलिए यह हमारे लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है।' उन्होंने कहा, 'इसलिए, हम इस विधेयक पर विचार

अगर इसमें सुधार की जरूरत है तो हम ऐसा करना जारी रखेंगे।' इससे पहले विधेयक के बारे में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा था कि पिछले कई वर्षों में संसद की स्थायी समिति सहित अनेक मंचों पर कई घंटों तक इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि 48 संगठनों तथा 39 विभागों एवं मंत्रालयों ने इस पर चर्चा की और इसके लिए 24 हजार सुझाव तथा विचार प्राप्त हए।

करेंगे. इसे पढेंगे और सनिश्चित करेंगे कि



संसद में फ्लाइंग किस पर विवाद !



#### LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Central Office: Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400021 (IRDAI Reg. No. 512 dated 01.01.2001)

#### UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

₹in lakh Three months ended/as at Sr. Year Ended as at **Particulars** 31-Mar-23 30-Jun-22 30-Jun-23 31-Mar-23 98,91,572.02 Premium Income (Gross) 1,32,43,221.18 98,94,067.63 4,76,63,279.16 Net Profit / (Loss) for the period 9,73,355.34 13,19,094.87 63,123.07 36,08,093.50 (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax 9,73,355.34 13,19,094.87 63,123.07 36,08,093.50 (after Exceptional and / or Extraordinary items) <sup>2</sup> Net Profit / (Loss) for the period after tax 13,19,079.43 60,278.68 35,99,664.60 9,63,498.31 (after Exceptional and / or Extraordinary items) 6,32,499.77 Equity Share Capital (Paid-up) 6,32,499.77 6,32,499.77 6,32,499.77 Reserves (excluding Revaluation Reserve and 40,10,087.18 49,72,313.57 40,10,087.18 5,59,021.13 fair value change account) Earnings Per Share (Face value of Rs.10 each) continuing and discontinued operations)-Basic: 0.95 56.91 20.86 Diluted: 0.95 56.91

Key number of Unaudited Standalone Results of the Company are as under:	Key number of Unaudited St	andalone Results	of the Company ar	e as under:

Key number of Unaudited Standalone Results of the Company are as under: ₹in lak								
Particulars	Particulars Three months ended/as at							
	30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23				
Premium Income (Gross) <sup>1</sup>	98,50,944.65	1,31,96,386.23	98,48,585.12	4,74,66,813.63				
Profit before tax	9,63,464.04	13,42,185.93	70,442.39	36,45,678.15				
Profit after tax	9,54,371.26	13,42,781.16	68,288.90	36,39,738.99				
	Particulars  Premium Income (Gross) <sup>1</sup> Profit before tax	Particulars         30-Jun-23           Premium Income (Gross)¹         98,50,944.65           Profit before tax         9,63,464.04	Particulars         Three months ended/as at 30-Jun-23         31-Mar-23           Premium Income (Gross)¹         98,50,944.65         1,31,96,386.23           Profit before tax         9,63,464.04         13,42,185.93	Particulars         Three months ended/as at           30-Jun-23         31-Mar-23         30-Jun-22           Premium Income (Gross)¹         98,50,944.65         1,31,96,386.23         98,48,585.12           Profit before tax         9,63,464.04         13,42,185.93         70,442.39				

Place:- Mumbai

Date:- 10.08.2023

- 1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax
- Net Profit/(Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' account)
- The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Corporation's website (www.licindia.in)
- The financial results include the figures for the guarter ended 31/03/2023 being the balancing figures between the audited figures in respect of full Financial Year 2022-23 and the published unaudited figures upto the third quarter of the previous financial year.
- 5. The New Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance industry in India.

For and on behalf of the Board of Directors

Ms. Mini Ine **Managing Director** (DIN: 07791184)

किसानों के साथ बढ़ने का और देश को बढ़ाने का

मिशन

वर्ष 2022-23 में भारत के स्टार्टअप ने 8-12 प्रतिशत के बीच औसत वेतन वृद्धि की है। एलिवेशन कैपिटल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतन बढ़ोतरी में प्रदर्शन की हिस्सेदारी 50 फीसदी है. वहीं अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने और प्रमोशन पाने जैसे कारकों को 20 फीसदी तक के दायरे में रखा जाता है।

वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका में कर्मचारी शेयर विकल्प (इसॉप) एक प्रमुख घटक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में कम नकद वेतन बढ़ोतरी हुई और



स्टार्टअप:12 फीसदी वेतन बढा

करीब 50 प्रतिशत कंपनियों ने नेतत्वकर्ताओं को अतिरिक्त इक्विटी अनुदान की पेशकश की।

एलिवेशन कैपिटल के उपाध्यक्ष (टैलेंट) कल्लान एच कहते हैं, 'व्यापक स्तर की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय स्टार्टअप प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखने और

उनकी नौकरी बरकरार रखने के लिए

करके माहौल के अनुरूप रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि अंतर काफी अहम है और छोटे से मध्यम स्तर के स्टार्टअप में प्रौद्योगिकी पेशवरों की वेतन बढ़ोतरी सामान्य है।

कल्लान कहते हैं कि नेतृत्वकर्ता की भमिकाओं वाले लोगों को नकद वेतन बढ़ोतरी के बजाय मुआवजे में सुधार के साथ-साथ नए शेयरों के अनुदान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'कर्मचारी और स्टार्टअप द्वारा इसॉप को देखने के तरीके में हम एक सांस्कृतिक बदलाव देख रहे हैं और नेतत्वकर्ता के स्तर यह काफी उच्च स्तर पर देखा जाता है। '

# थिएटरों से कंपनियों तक...

लिमिटेड एडिशन वाले ये पैक दर्शकों को बहुत लुभाएंगे और इस फिल्म के लिए रोमांच भी बढ़ाएंगे।

फ्रेशवर्क्स और उसके संस्थापक गिरीश मातृभूतम पर भी रजनीकांत का जादु छाया है। अपने कर्मचारियों को 20 अगस्त को यह फिल्म दिखाने के लिए कंपनी सात स्क्रीन्स पर 2,200 टिकट बुक करा चुकी है। मातभतम ने 2021 में रजनीकांत के सम्मान में नैसडैक में अपने आईपीओ को 'प्रोजेक्ट सुपरस्टार' कोड नाम दिया था। वह रजनी को अपना आदर्श मानते हैं।

हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस भी अपने कर्मचारियों, बैंकरों और शुभचिंतकों के लिए जेलर का खास शो करवा रही है। खबर है कि फिल्म का पहले दिन का पहला शो देखने के लिए एक परिवार ओसाका से चेन्नई आया है।

#### कंपनियों की दिलचस्पी

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि जेलर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना सकती है मगर कंपनियां रजनी की पिछली फिल्मों की तरह जोश में नहीं हैं।

ट्रेड विश्लेषक मनोबाला विजयबालन ने कहा, 'दो साल बाद सुपरस्टार रजनीकांत की कोई फिल्म थिएटरों में रिलीज हो रही है। इस साल की तमिल फिल्मों में इसकी शुरुआत जबरदस्त रहेगी। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक के अलावा विदेशी बाजारों से भी काफी कमाई करेगी। हर कोई रजनी ब्रांड से जडना चाहता है।'

रजनीकांत की खास शैली के कारण उनकी पिछली छह फिल्मों- अनाथे, दरबार, पेट्टा, 2.0, काला और कबाली - ने 2,000 करोड़ से 2,500 करोड़ रुपये के बीच कमाई की, जबिक उनमें से दो फिल्मों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। फिल्म उद्योग पर नजर रखने वाली फर्म सैकनिक के मुताबिक जेलर भारत में पहले दिन 42 करोड़ रुपये कमा सकती है। चर्चा है कि यह फिल्म भारत और अमेरिका में अग्रिम बुकिंग के जरिये करीब 19 करोड़ रुपये जुटा भी चुकी है।

बुकमाईशो के मुख्य परिचालन अधिकारी आशिष सक्सेना ने बताया, 'बुकमाईशो पर तमाम शहरों में जेलर के अब तक करीब 9 लाख टिकट बुक हो चुके हैं।' इसकी तुलना में गदर 2 के लिए 3 लाख टिकट बुक हए हैं। चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर के तो केवल 70,000 और अक्षय कुमार की ओ माई गाँड 2 के 45,000 टिकट ही बिके हैं।

तमिलनाडु थिएटर ऐंड मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तिरुपुर एम सुब्रमण्यन ने बताया, 'पहले चार दिनों के लिए तमिलनाडु के सभी 900 थिएटर हाउस फुल हो चुके हैं। इनमें से हरेक थिएटरों में औसतन 600 सीटें हैं। इससे पहले सप्ताह की कमाई का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।'





पंजीकृत कार्यालयः 401-402, लूसा टावर, आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, दिल्ली-110 033; टेलीफैक्स: 011-27679700-05 वेबसाइटः www.insecticidesindia.com, इमेलः investor@insecticidesindia.com, CIN: L65991DL1996PLC083909

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष (₹ लाख में, प्रति शेयर आय के अतिरिक्त) वार्षिक तिमाही की वार्षिक विवरण 30-6-2023 31-3-2023 30-6-2022 31-3-2023 30-6-2023 31-3-2023 30-06-2022 31-3-2023 30.230.94 .80.259.24 30.230.94 56.088.35 1.80.259.2 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध लाभ 3.948.92 (3,902.73) 3,959.96 (3,931.73) 5,061.54 8,360.71 5,092.78 8,382.9 कर अदायगी के पश्चात शुद्ध लाभ 2,903.11 (2,900.82)3,799.66 6,298.75 (2.929.66)3,830.90 6,321.12 अवधि के दौरान कुल समेकित आय 3.053.70 (2,980.79)3.924.15 6.327.55 3.064.05 (3,008.36)3,955.89 6,353.03 कर पश्चात लाभ व कर पश्चात अन्य आय सहित] पेड—अप इक्विटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति शेयर) 2,959.78 पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना पत्र में प्रदर्शित लेखापरीक्षित 88,609.09 88,869.19 आरक्षित निधि (पूनर्मूल्यन निधि के अतिरिक्त) प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति शेयर) (वार्षिक नहीं) 9.81 12.84 (9.80 21.28 9.85 (9.90)12.94 21.36 (9.80)12.84 9.85 (9.90)21.36

a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रगटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमयन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में 30 जून, 2023 के अंत में दाखिल तिमाही का अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों का सार है। एकल और समेकित वित्तीय परिणाम और व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.insecticidesindia.com पर उपलब्ध है।

www.nseindia.com आर कंपनी की वेबसाइट www.insecticidesindia.com पर उपलब्ध हैं।
b) जपरोवत वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार है। इंड-एएस कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और उसके बाद के संशोधनों के तहत निर्धारित हैं।
c) सदस्यों के अनुमोदन के बाद, 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी ₹2500 लाख जिसमें 2,50,00,000 इिकटी शयर्स हैं है। असका अंकित मूल्य ₹10 / — प्रति शेयर हैं से बढ़कर ₹3500 लाख हो गया था। जिसमें 3,50,00,000 इिकटी शेयर्स शामिल थे जिसका अंकित मूल्य ₹10 / — प्रति शेयर के अलावा, 06 अक्टूबर, 2022 को आवंटन समिति ने ₹10 / — प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 98,65,946 इिकटी शेयर्स को प्रत्येक दो इकिटी शेयर के लिए ₹10 / — प्रति शेयर के अलित मूल्य के अनुपात में आवंटित किया है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज़ है और प्रतिभृति प्रीमियम से ₹986.59 की राशि का पूंजीकरण किया गया है। बोनस शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रमावी कार्य दिवस 17 अक्टूबर, 2022 पर सूचीबद्ध थे। इसने उपर्युक्त वितीय परिणामों को प्रभावित नहीं किया है, प्रति शेयर आय को छोड़कर, जिसे इंड-एएस 33 'प्रति शेयर कमाई' के अनुसार प्रस्तुत सभी अवधि में बोनस

d) 30 जून, 2023 को समाप्त अवधि के दौरान समृह द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 01 मई, 2023 को आईआईएल ओवरसीज डीएमसीसी (दुबई) में सम्मिलित किया गया था। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कीटनाशकों, कृषि और पशु चिकित्सा कीटनाशक उत्पादों के व्यापार का व्यवसाय चलाएगी।

(राजेश कुमार अग्रवाल) प्रबंध निदेशक DIN-00576872



स्थानः दिल्ली दिनांकः 10/08/2023

Mumbai: A man wielding a sharp weapon tried to carry out an extortion in broad daylight in Oshiwara on Thursday, police said. The police identified the victim as one Rajkumar Yadav, a

resident of the Oshiwara area. CCTV footage of the incident was later uploaded by someone on social media. The police are further investigating



## CFO discreetly employs wife, she gets paid ₹46L without single day of work

VISHAL SINGH / Mumbai

A top official of a chemical firm has been booked for employing his wife without anyone's knowledge and paying her a regular salary without any record of biometric attendance. The two have also been booked for drawing salaries without tax deducted at source (TDS). Following the case, the official was sacked from the firm last month.

Dinesh Bhalotia, the CFO of Survival Technology Pvt Ltd, got his wife Sabita to join as an executive (tax and compliance) and paid her Rs 46 lakh in over two years of her

The two have also been booked for drawing salaries without tax deducted at source

month. On papers, Sabita Bhalotia joined on February 1, 2021 and was employed till July 2023. Her absence was flagged by John Parmar, the head of the firm's HR department. Parmar later filed a complaint with the Dadar police.

In his complaint, the HR head mentioned that the case was revealed owing to the CFO's misdemeanour warnings were issued to him.

When Bhalotia's misbehaviour continued despite warnings, Parmar checked his documents and found Sabita Bhalotia's records, too, with the firm paying her Rs1.69 lakh per month without any TDS. Moreover, the CFO himself was drawing Rs4 lakh per month without TDS. Discreet investigation outside the office revealed that he was terminated from the previous firm due to a cheating case.

Following an official inquiry, Bhalotia was fired and Parmar lodged a police complaint. The police said a probe into the matter is currently underway.



# State to soon announce policy on crèches: Min

An artist at a Parel workshop gives shape to an idol for the upcoming

FPJ NEWS SERVICE / Mumba

FINAL TOUCHES

Policy decisions regarding crèches and day care centres will be taken soon and rules will be framed for operations of such institutions, Women and Child Welfare Minister Aditi Tatkare said here on Thursday at a meeting of the department.

The minister had called a meeting of officials from the concerned departments of the state government as well as some NGOs to discuss plans to start government as well as private day care centres in Mumbai. Advocate Sushiben Shah, the chairperson of the state child rights commission, Rubal Agrawal, commissioner for the integrated child development project along with members from several NGOs were present at the oc-

"Crèches are the social need of the day. Such institutions are very

### **KEY ARGUMENTS**

Finding safe and homely crèches is a major issue facing working mothers.

If more day care centres can be started in rural as well as urban areas, that will be very good for ensuring safe houses for the

■ More crèches will help increase the number of working women.

necessary, not just in the urban set up but also in the rural areas, for children whose parents have to go out for jobs," the minister said.

"Children should get a homely and secure atmosphere at such institutions. Two different types of centres can be started for children between zero to six years of age

18 years of age," she said and added that the issue will be dealt with in detail in the forthcoming Policy For Women.

Shah said that finding a safe and homely crèche for children is a major issue facing working mothers. If more day care centres can be started in rural as well as urban areas, that will be very good for ensuring safe houses for the children. This will also help increase the number of working women, she added.

"Good crèches can help the society avoid ills like malnutrition, sexual abuse, school dropouts. Hence, efforts are being made to start operating at least eight day care centres in the eight administrative divisions of the state before March 8," Shah said, adding that these centres will be started on an experimental basis along

## Volunteers help BMC destroy mosquito sites

FPJ NEWS SERVICE / Mumbai

The BMC's short-staffed Insecticide Department is using the help of volunteers to destroy mosquito breeding spots in the city.

More than 1,200 volunteers have been involved in preventive measures taken by the civic body, including spraying disinfectant at construction sites, mill areas, etc.

To keep a check on mosquitoborne diseases, the BMC carries out a fortnightly drive and inspects governmental institutions, and residential and commercial establish-

**MALARIA CONTROL** | Breeding sources Homes inspected (August 1-6) 6,499 17,733

Anopheles mosquito breeding **691** sites detected

ments. Disinfectant is sprayed at breeding spots containing larvae of malaria and dengue. The department workers also look out for other places where water can collect, including containers, tyres, etc, and Aedes mosquito breeding sites 5,115 detected

Homes

However, the department only has 1,594 workers for 24 administrative wards across the city. So the BMC has taken the help of non-governmental organisations. These vol-

3,52,416 3,74,327

construction sites in their respective areas and spray disinfectants every week.

The city witnessed heavy rainfall last month, and there is a possibility of mosquitoes breeding if water accumulates for over a week. The BMC has started anti-larval treatment wherever rainwater accumulates. Around 1,213 volunteers have been involved in the work along with civic workers of the Pest Control Department. They have to jointly visit the construction sites and search for mosquito breeding spots.



## LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Central Office: Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400021 (IRDAI Reg. No. 512 dated 01.01.2001)

#### UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

₹in lakh

Sr.		TI	Year Ended as at		
No.	Particulars	30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23
1	Premium Income (Gross) 1	98,91,572.02	1,32,43,221.18	98,94,067.63	4,76,63,279.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	9,73,355.34	13,19,094.87	63,123.07	36,08,093.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) <sup>2</sup>	9,73,355.34	13,19,094.87	63,123.07	36,08,093.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	9,63,498.31	13,19,079.43	60,278.68	35,99,664.60
5	Equity Share Capital (Paid-up)	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve and fair value change account)	49,72,313.57	40,10,087.18	5,59,021.13	40,10,087.18
7	Earnings Per Share (Face value of Rs.10 each) continuing and discontinued operations)-				
	1. Basic: 2. Diluted:	15.23 15.23	20.86 20.86	0.95 0.95	56.91 56.91

#### Key number of Unaudited Standalone Results of the Company are as under:

₹in lakh

			Three months ended/as at	nonths ended/as at		
No.		30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23	
1	Premium Income (Gross) <sup>1</sup>	98,50,944.65	1,31,96,386.23	98,48,585.12	4,74,66,813.63	
2 Profit before tax		9,63,464.04	13,42,185.93	70,442.39	36,45,678.15	
3	Profit after tax	9,54,371.26	13,42,781.16	68,288.90	36,39,738.99	
Makes						

Place: - Mumbai

Date:- 10.08.2023

- 1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax
- 2. Net Profit/(Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' account)
- The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Corporation's website (www.licindia.in)
- The financial results include the figures for the quarter ended 31/03/2023 being the balancing figures between the audited figures in respect of full Financial Year 2022-23 and the published unaudited figures upto the third quarter of the previous financial year
- The New Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance industry in India.

For and on behalf of the Board of Directors

Ms. Mini Ipe **Managing Director** (DIN: 07791184)

### Two held for possession of illegal weapons

MEGHA KUCHIK/ Mumba

The Mumbai Crime Branch Unit 9 has arrested two persons for the alleged illegal possession of weapons in Andheri on August 9.

Arbaz Khan, 23, and Tabish Hussain, 22, both residents of Uttar Pradesh, were arrested after a trap was set up for them near Bombay YMCA (Young Men's Christian Association) at New Link Road in Dadabhai Naoroji (D N) Nagar. Led by police inspector Daya Nayak, the operation was executed by Mumbai Crime Branch Unit 9 team, who seized a desi pistol, 20 live pistol cartridges, three Rampuri button knives, and an iron-made country karat from their possession. The accused confessed to using the weapons for a robbery they were planning in Mumbai. It was also learnt that a case of alleged threat and rape of a woman had already been registered at the Meghwadi police station against one of them.

#### **Police arrest** serial molester

The Nirmal Nagar police have arrested a serial molester who assaulted women by pretending to be friends with them. Finding the potential victims alone, Balu Pandurang Khaire, 36, would offer them lift on his motorcycle but instead drive them to a secluded spot and molest them.

He introduced himself to one of the women (the complainant in the case) as a friend of her father and offered to drop her to his house. Finding her alone there, he molested her and fled when she shouted for help.

Investigation revealed he lives in Pratiksha Nagar but rarely goes home. He was arrested from Diva after technical information revealed his location. He lived with friends in a Ganpati idol making -FPJ NEWS SERVICE

CIN: U65999MH2017FLC293229

Regd. Office: 101, Raheja Centre First Floor, Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021. Website: https://www.sbmbank.co.in, Tel: +91 22 4302 8888

			<b>Quarter Ended</b>		Year Ended
Sr no.	Particulars	30-June-2023	31-Mar-2023	30-June-2022	31-Mar-2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	23,881	24,968	18,464	86,702
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	73	(630)	1,230	2,082
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	73	(630)	1,230	2,082
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	73	(630)	1,230	2,082
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	73	(630)	1,230	2,082
6	Paid up Equity Share Capital	82,363	82,363	82,363	82,363
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)				(11,073)
8	Securities Premium Account				3,333
9	Net worth	69,213	69,012	70,439	69,012
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt *	161,374	170,525	110,995	170,525
11	Outstanding Redeemable Preference shares	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio *	2.18	2.30	1.53	2.30
13	Earnings Per Share (Face Value of ₹10/- each) (Not annualized)				
	1. Basic :	0.01	(0.08)	0.15	0.25
	2. Dilluted :	0.01	(0.08)	0.15	0.25
	* Debt represents total borrowings; Equity represents total of share capital and reserves.				

- 1. These results for the quarter ended June 30, 2023 have been reviewed by statutory auditors K. S. Aiyar & Co., Chartered Accountants who have issued an unmodified opinion thereon. The results for FY 2022-23 were audited by - K. S. Aiyar & Co., Chartered Accountants, on which they had issued an unmodified opinion
- 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly / half yearly/ annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly / half yearly/ annual financial results are available on the websites of the listed entity (https://www.sbmbank.co.in/aboutus/investor-corner.php)

Mumbai August 11, 2023

For SBM Bank (India) Ltd. Mr. Sidharth Rath **Managing Director & Chief Executive Officer** 

# कराचा भार न वाढवता महसूलवाढ करणार

# ५० एसटी स्थानकांचे सुशोभीकरण

प्रतिनिधी / मंबई राज्याला विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर ठेवण्यासाठी महसूलवाढ आवश्यक आहे, मात्र याचा भार नागरिकांवर न टाकता करचोरी रोखून महसूलवाढीवर भर देण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले. राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि सर्वांगीण विकासासाठी महसूलवाढ महत्त्वाची असून, राज्याला महसूल मिळवून देणाऱ्या जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन विभागांनी नियोजनबद्ध काम करसंकलन अधिकाऱ्यांनी करचोरी करणाऱ्यांच्या दोन पावले पुढे राहून काम करावे. त्यासाठी महसुलवाढीच्या नवनवीन संकल्पना पृढे आणाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले. मंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित महसुलवाढीसंदर्भातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. करसंकलनात वाढ करण्यासाठी आलेल्या सूचना तसेच उपाययोजनांचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात यावी, असेही अजित पवार

यांनी बैठकीत सांगितले. नुकतेच विधिमंडळाचे पावसाळी

#### लायसन्स परीक्षेची अद्ययावत यंत्रणा

राज्याला महसूल मिळवून देणाऱ्या अधिकारी–कर्मचाऱ्यांना तसेच कार्यालयात करभरणा करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात .



करदात्यांची गैरसोय दूर करावी . परिवहन विभागाने वाहनचालक परवाना देण्याच्या कार्यप्रणालीतील उणिवा दूर कराव्यात . चुकीच्या पद्धतीने वाहनचालक परवाना दिल्याने अपघात होतात. हे रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयात वाहन चाचणी तसेच चालक परीक्षा घेण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा विकसित करण्यात यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

यांनी देशातील पाचशेहून अधिक रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास, सुधारणा, सुशोभीकरणाची मोहीम सुरू केली आहें . त्याच धर्तीवर राज्यातील एसटी स्थानकांचा पुनर्विकास केला जावा आणि पहिल्या टप्प्यात किमान ५० एसटी स्थानकांचे सुशोभीकरण करण्यात यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

अधिवेशन संपले. त्याच्या शेवटच्या दिवशीच अजित पवार यांनी राज्याच्या महसलवाढीवर आपले आता लक्ष राहणार आहे. त्यासंदर्भात लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार असल्याचे ते म्हणाले होते. त्यानुसार त्यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. अजित पवार यांनी वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला तसेच राज्याच्या महसलात वाढ करण्यासाठी जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, ऊर्जा,

उद्योग, महसूल विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संबंधितांना महसूलवाढीसाठी यद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश दिले.

राज्य शासनाच्या काही विभागांनी काढलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आकारल्याचे समोर आले आहे. ही बाब परीक्षार्थींवर करणारी असून, जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच शल्क आकारण्यात यावे, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना केली.

## अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी थांबवा!

अन्यथा पालिका निवडणुकीचे परिणाम भोगा पालिका कर्मचारी समन्वय समितीचा इशारा



मुंबई: कोरोना काळात जीवाची बाजी लावत, कोरोनाबाधित रुग्णांची सेवा करणारे, मुंबईकरांना संकटकाळात सोयांसुविधा उपलब्ध करून दणाऱ्या पाालका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे. त्यामुळे पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी तत्काळ थांबवा. अन्यथा आगामी पालिका निवडणकीत परिणाम भोगा. असा इशारा मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने राज्य सरकारला दिला आहे.

गेल्या काही महिन्यांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे अशाप्रकारांना वचक बसण्यासाठी असलेले ३३२ व ३५३ कलम रद्द करू नये, अशी मागणी समन्वय समितीने लावन धरली आहे. कामगारविरोधी धोरणाविरोधात २३ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कामगारांसाठी असलेले कलम ३३२ व ३५३ रद्द करण्याची मागणी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी केली आहे.


आमदारांची ही मागणी मान्य करून कलम रह केल्यास. भविष्यात मारहाणीच्या घटनांत वाढ होतील. कोणीही उठेल व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यात अडथ निर्माण करून मारहाण केली जाईल. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वपक्षीय आमदारांच्या दबावाला बळी पडन सदर कलम रद्द करू नये, अशी मागणी समन्वय समितीने

काही दिवसांपूर्वी वांद्रे पूर्व येथील पालिकेच्या विभागीय कार्यालयात अजय पाटील या अभियंत्याला मारहाण झाली. याआधीही मारहाणी, कर्तव्य पार पाडण्यास दबाव आणण्याच्या घटना घडल्या आहेत. याला वचक बसण्यासाठी ही कलमे आहेत. ही कलमेच रद्द करण्याचा डाव आखला जात आहे. त्यामुळे आमदारांच्या या मागणीला मान्यता देऊन सरकारने कलम रद्द केल्यास भविष्यात मारहाणीच्या घटना वाढतील व कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावणे कठीण जाईल. त्यामुळे कलम रद्द करू नये, अन्यथा आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा समन्वय समितीचे बाबा कदम, वामन कविस्कर, अशोक जाधव, साईनाथ राजाध्यक्ष आदींनी दिला आहे.

## राज्यातील १२ लाख शेतकऱ्यांसाठी धनंजय मुंडेंची विशेष मोहीम

: प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या चौदाव्या हफ्त्यापासून राज्यातील १२ लाख पात्र शेतकरी भूमी अभिलेख अद्ययावत नसणे, ई-केवायसी नसणे तसेच बँक खात्याशी आधार संलग्न नसणे या कारणांनी वंचित राहिले होते. मात्र यापुढे या

marathi.freepressjournal.in





विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत प्रत्येक तालुका स्तरावर तहसीलदार, तालुक्याचे भूमिअभिलेख अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी या तिघांची संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली असून त्यांच्या देखरेखीखाली गाव पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सेवक यांनी वरील तीन अटींमुळे लाभापासून

वंचित राहिलेले शेतकरी शोधन त्यांच्यामार्फत तीनही अटींची पर्तता करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याचे नुकतेच वितरण झाले आहे.

## बंधपत्रित डॉक्टरांच्या १४३२ जागांची पदभरती करा

मुंबई : राज्यातील रुग्णालयांमध्ये बंधपत्रित सेवा विभागाने बंधपत्रित सेवेसाठी पात्र उमेदवाराची आणि डॉक्टरांची संख्या १६०० होती. ती पदे कमी पडत ती १४३२ पदे वाढवून दिली. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण शासकीय आदेश काढूनही या निर्णयावर अंमलबजावणी न झाल्याने एमडी, मंत्र्यांना पत्र

एमएससारख्या डॉक्टरांना तीन महिने बेरोजगारी सहन करावी लागणार आहे. बीएमसी मार्ड संघटनेने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र लिह्न जीआर काढलेल्या १४३२ पदांची त्वरित भरती करण्याची मागणी केली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन जागा वाढवून देण्यासाठी यापूर्वीच आंदोलन केले.

जागेची यादी त्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर केली. त्यामध्ये असल्याने डॉक्टरांच्या मागणीचा विचार करून सरकारने असे दिसून येते की, बऱ्याच विभागामध्ये जागेच्या तुलनेत पात्र उमेदवार हे जास्त असल्याची बाब

> विद्यार्थ्यांच्या ध्यानात आले. त्याचवेळी सरकारने समंती दिलेल्या नवीन १४३२ जागा या यादीत समाविष्ट केल्या नसल्याने

सर्वाधिक डॉक्टरांना बेरोजगारी सहन करावी लागणार असल्याची तक्रार बीएमसी मार्डकडून मांडण्यात आली. यावर बोलताना बीएमसी मार्डचे सदस्य डॉ. प्रवीण ढगे यांनी सांगितले की, बंधपत्रित सेवांमधील डॉक्टरांच्या

### आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या उन्नतीसाठी दीडशे कोटी रुपये

मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)ची स्थापना करण्यात आली आहे. संस्थेमार्फत या घटकांच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक योजना, स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण व नोकरीइच्छुक युवकांसाठी यूपीएससी व अभ्यासक्रम एमपीएससीचे करण्यासाठी संस्थेला यावर्षी दीडशे कोटी रुपये देणार, असे उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अमृत संस्थेच्या अडीअडचणी आणि भविष्यातील योजना याबाबत आढावा बैठक फडणवीस अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. अमृत संस्थेचे कामकाज प्रभावीपणे व्हावे, यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक या पदासह इतर पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. व्यवस्थापकीय संचालक पदाव्यतिरिक्त उर्वरित मनुष्यबळ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात यावे. संस्थेच्या माध्यमातृन खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदुष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांसाठी उद्योग, व्यवसाय, नोकरी, उच्च शिक्षण, परदेशात उच्च शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात याव्यात.

# भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

### LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Central Office: Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400021 (IRDAI Reg. No. 512 dated 01.01.2001)

#### UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

₹in lakh

Sr.		Three months ended/as at		Year Ended as at	
No.	Particulars Particulars	30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23
1	Premium Income (Gross) 1	98,91,572.02	1,32,43,221.18	98,94,067.63	4,76,63,279.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	9,73,355.34	13,19,094.87	63,123.07	36,08,093.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) <sup>2</sup>	9,73,355.34	13,19,094.87	63,123.07	36,08,093.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	9,63,498.31	13,19,079.43	60,278.68	35,99,664.60
5	Equity Share Capital (Paid-up)	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve and fair value change account)	49,72,313.57	40,10,087.18	5,59,021.13	40,10,087.18
7	Earnings Per Share (Face value of Rs.10 each) continuing and discontinued operations)-				
	1. Basic: 2. Diluted:	15.23 15.23	20.86 20.86	0.95 0.95	56.91 56.91

#### Key number of Unaudited Standalone Results of the Company are as under:

₹in lakh Voor Ended as at

www.armiet.in

5r.	Particulars	ļ l	THIER MOUNTS ENGEN/as at				
No.		30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23		
1	Premium Income (Gross) <sup>1</sup>	98,50,944.65	1,31,96,386.23	98,48,585.12	4,74,66,813.63		
2	Profit before tax	9,63,464.04	13,42,185.93	70,442.39	36,45,678.15		
3	Profit after tax	9,54,371.26	13,42,781.16	68,288.90	36,39,738.99		
Notos:	·						

- 1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
- 2. Net Profit/(Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' account)
- The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Corporation's website (www.licindia.in)
- The financial results include the figures for the quarter ended 31/03/2023 being the balancing figures between the audited figures in respect of full Financial Year 2022-23 and the published unaudited figures upto the third quarter of the previous financial year.
- 5. The New Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance industry in India.

For and on behalf of the Board of Directors

Ms. Mini Ipe **Managing Director** (DIN: 07791184)

Date:- 10.08.2023

Place:- Mumbai

## ARMIET Alamuri Ratnamala

Institute of Engineering and Technology (A Hindi Linguistic Minority Institute) (Run by Koti Vidya Charitable trust)

DIRECT SECOND YEAR DIPLOMA IN ENGINEERING DTE CODE DEN3219

ADMISSIONS ISO 9001 : 2015 Certified OPEN **Accredited by NAAC** 2023-24 with B+ Grade

MASTER OF MANAGEMENT STUDIES DTE CODE:: MB3219

Finance, Marketing

HR, Operations, IT

Computer Engineerin

Electronics & Telecom, Enga

Mechanical Engineering

#### ADMISSION NOTICE FOR A.Y. 2023 - 2024 Applications are invited for admission under Vacant Seats against CAP & Minority FIRST YEAR OF DIPLOMA IN ENGINEERING DTE CODE DEN3219

Civil Engineering 321999810 321999810 Artificial Intelligence and Artificial Intelligence and 321919110 05 Machine Learning Machine Learning Electronics and 321937210 321937210 Telecommunication Engineering Mechanical Engineering 321961210 Mechanical Engineering 321961210 45 Mechatronics Engineering 321999710 30 Mechatronics Engineering 54 02.09.2023 Last date of Issue of Application forms Display of Merit List on Notice Board / Website Display of Merit List on Notice Board / Website Last date of

Last date of neporting at conege for				Last date of neporting at conege		
	admission with full Fees		: 08.09.2023	admission with full Fees		: 08.09.202
	FIRST YEAR OF ENGINEERING (I	F.E.) DTE CO	DDE EN3219	DIRECT SECOND YEAR OF ENGINEERIN	G (D.S.E) DTE CO	DDE EN3219
	BRANCH	CHOICE CODE	VACANCIES / SEATS	BRANCH	CHOICE CODE	VACANCIES / SEAT
	Civil Engineering	321919110	60	Civil Engineering	321919110	129
	Computer Science & Engg. (AIML)	321991110	60	Computer Science & Engg. (AIML)	321991110	06
	Computer Engineering	321924510	120	Computer Engineering	321924510	14
	Electrical Engineering	321929310	60	Electrical Engineering	321929310	64
	Electronics and Tele. Engg.	321937210	30	Electronics and Tele. Engg.	321937210	31
	Information Technology	321924610	30	Information Technology	321924610	08
	Mechanical Engineering	321961210	60	Mechanical Engineering	321961210	65
	Lock data of leave of Application		. 00 00 0000	Last date of Issue of Application for	ormo	. 02 00 2022

**Call** : 8879648603 / **7**507626210 / 8888476667 / 9049169962 

Last date of Issue of Application forms Display of Merit List on Notice Board / Website Last date of Reporting at College for admission with full Fees

MASTER OF MANAGEMENT STUDIES (M.M.S

Display of Merit List on Notice Board / Website

COURSE

**MASTER OF ENGINEERING (M.E.)** 

\*Applications invited under mi

Last date of Reporting at College for admission with full Fees : 30.08.2023

**MASTER OF ENGINEERING** 

Last date of Issue of Application forms

APPLICATION FORMS FEES Diploma: Rs 750/- Degree: Rs 1000/- MMS/ M.E: Rs 1500/-

17.08.2023

25.08.2023

DTE CODE: ME 3219

VACANCIES / SEATS

18'

24

as per DTE & ARA Admission brochure 2023 - 24. Guidelines at dtemaharashtra.gov.in will be applicable

Last date of Issue of Application forms : 20.08.2023 Display of Merit List on Notice Board / Website : 21.08.2023 Last date of Reporting at College for 21.08.2023 Display of Merit List on Notice Board / Website : 03.09.2023 Last date of Reporting at College for 25.08.2023 admission with full Fees : 06.09.2023 Thane Head Office: 111B / 124 First Floor, Vardhaman Industrial Estate, Gokul Nagar, Thane (w). / Campus: ARMIET, A.S. Rao Nagar, Shahapur

## शहरी भागातील अंगणवाड्यांची संख्या वाढणार

#### मंदार पारकर /मुंबई

राज्यात एकुण १ लाख १० हजार अंगणवाड्या आहेत. महिला, गरोदर महिला, माता, मुली, यांच्यासाठी विविध अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात.

महिला व बालविकास विभागामार्फत याचे नियोजन करण्यात येते. राज्यातल्या शहरी विशेषतः महापालिका क्षेत्रातील अंगणवाड्यांची संख्या वाढविणे. तसेच ज्या अंगणवाड्यांना विजेचे कनेक्शन नाही तिथे सोलर पॅनेलच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करणे अशा योजना राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सुरू करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठीचा आढावा घेण्यासही त्यांनी सुरुवात केली आहे.

राज्यात एकुण १ लाख १० हजार अंगणवाड्या आहेत. त्यातील सुमारे ३० हजार अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत चालविण्यात येतात. महिला व बालविकास विभागाच्या मार्फत या योजना चालविण्यात येतात. महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविण्यात येतात. मनोधैर्य योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना, बालसंगोपन संस्था, इंदिरा

माध्यमातून वीजपुरवटा करणार

सीलरच्या गांधी मातृत्व सहयोग योजना, अशा अनेक योजना विभागामार्फत राबविण्यात येतात. राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या सहकार्याने या योजना राबविल्या जातात.

शहरी भागातील झोपडपट्ट्या, ग्रामीण तसेच



आदिवासीबहल भागात अंगणवाड्या विस्तारल्या आहेत. विशेषतः बालकांमधील कुपोषण रोखणे, त्यांचे आरोग्य चांगले राखणे हे काम करण्यात येते. शहरी भागातील महानगरपालिका क्षेत्रातल्या मुलांना विशेषतः झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या मुलांना चांगले पोषण मिळावे, त्यांचे आरोग्य चांगले राखावे, यासाठी या भागातही अंगणवाड्या वाढविण्याचा प्रयत्न आदिती तटकरे यांचा राहणार आहे.